



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 भाद्र 1934 (श0)
(सं0 पटना 492) पटना, बुधवार, 19 सितम्बर 2012

विधि विभाग

अधिसूचना

19 सितम्बर 2012

एस0ओ0 168, दिनांक 19 सितम्बर 2012—विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3324/जे0, दिनांक 07.09.2000 के द्वारा गठित एवं अधिसूचना संख्या सं0सं0-ए0/ए0बी0-01/2006-7000/जे0, दिनांक 19.09.12 द्वारा विस्तारित बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति श्री अभिजीत सिन्हा, अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति पटना उच्च न्यायालय, पटना को उक्त विस्तारित अवधि तक के लिये नियुक्त किया जाता है।

उन्हें पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष वेतन एवं बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष को देय पूर्व निर्धारित अन्य सभी भत्ते एवं सुविधायें देय होंगी।

(सं0 सं0 ए/ए0बी0-01/06-7001/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के विधि सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 492-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>